



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 20, 2006/फाल्गुन 1, 1927

No. 153]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 20, 2006/PHALGUNA 1, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2006

सं. 48(आर ई-2005)/2004—2009

**का.आ. 227(अ).**—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैरा 1.3 और पैरा 3.7.8 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा 1-4-2005 से 31-3-2006 के दौरान किए गए निर्यात के लिए समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 की लक्ष्योपरि स्कीम (टारगेट प्लस स्कीम) में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. पैरा 3.7.3 की टिप्पणी-4 में से "और रत्न तथा आभूषण के शिपिंग बिल" शब्दों को हटा दिया गया है।
2. पैरा 3.7.3 में से, टिप्पणी-5 हटा दी गई है।
3. पैरा 3.1.5(ख) में "अथवा ऐसी इकाइयों को की गई आपूर्ति" शब्दों को "स्कीमों" शब्द के बाद जोड़ा गया है।
4. मौजूदा पैरा 3.7.5(ड) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया गया है—"हरे और अन्य बहुमूल्य, अर्द्ध बहुमूल्य पत्थर"
5. उप-पैरा 3.7.5(छ) की संख्या बदलकर 3.7.5(ट) की जाती है।
6. पैरा 3.7.5 में, उप पैरा 3.7.5(च) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—  
 "(छ) सभी प्रकार के और सभी रूपों में अयस्क और सांद्रण।  
 (ज) सभी प्रकार के अनाज।  
 (झ) सभी प्रकार की और सभी रूपों में चीनी।  
 (ञ) आईटीसी एचएस कोड 2709 से 2715 के अंतर्गत सभी प्रकार के और सभी रूपों में क्रूड/पेट्रोलियम आयल और क्रूड/पेट्रोलियम आधारित उत्पाद।"
7. यह निर्यात के लिए 1-4-2005 से लागू होगा।  
 इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/94/180/172/ ए एम 06/पी सी-1]

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
(Department of Commerce)  
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th February, 2006

**No. 48(RE-2005)/2004—2009**

**S.O. 227(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with paragraph 1.3 and paragraph 3.7.8 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Central Government hereby makes the following amendments in the Target Plus Scheme, for the exports effected during 1-4-2005 to 31-3-2006, of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, as amended from time to time :

1. In Note 4 of Para 3.7.3, the words 'and Gems and Jewellery Shipping Bills' are deleted.
2. In Para 3.7.3, Note 5 is deleted.
3. In Paragraph 3.7.5(b), the words 'or Supplies made to such units' are inserted after the word "Schemes".
4. Existing Para 3.7.5(e) is substituted by the following—'Diamonds and other precious, semi-precious stones'.
5. Existing sub-para 3.7.5(g) is renumbered as 3.7.5(k).
6. In Para 3.7.5, the following shall be inserted after sub-para 3.7.5(f).
  - “(g) Ores and concentrates, of all types and in all forms.
  - (h) Cereals, of all types.
  - (i) Sugar, of all types and in all forms.
  - (j) Crude/Petroleum Oil and Crude/Petroleum based products covered under ITC HS Codes 2709 to 2715, of all types and in all forms.”
7. This will take effect for exports from 1-4-2005.

This issues in public interest.

[F. No.01/94/180/172/AM06/PC-I]

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade & ex-officio Addl. Secy.